



# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 564]  
No. 564]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1978/पौष 5, 1900  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1978/PAUSA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय  
(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1978  
भावेन

का०आ० 726(अ)—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि  
15 नवम्बर, 1978 को उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में बैतालपुर  
में स्थित बीनी का विनिर्माण करने वाली श्री सीताराम शुगर कम्पनी  
लिमिटेड, (जिसे इस भावेन में इसके पश्चात् उक्त बीनी उपक्रम कहा  
गया है) 15 नवम्बर, 1978 तक बीनी का विनिर्माण प्रारंभ करने में  
सफल रही है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त बीनी उपक्रम के स्वामी को बीनी  
उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 6) की धारा  
3 की उपधारा (1) के अधीन 19 नवम्बर, 1978 को सूचना संख्या  
बीनी /146/78-79 जारी की थी जिसमें उससे यह कहा गया था  
कि उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर  
उन परिस्थितियों को लिखित रूप में बताएँ, जिनके कारण उक्त बीनी  
उपक्रम 15 नवम्बर, 1978 को या उसके पूर्व बीनी का विनिर्माण  
प्रारंभ करने में असफल रही है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त बीनी उपक्रम की तारीख 28 नवम्बर,  
1978 की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, 11 दिसम्बर, 1978  
को यह तारीख विनिर्दिष्ट की थी जिस तक या जिससे पूर्व उक्त उपक्रम  
को बीनी का उत्पादन प्रारंभ करना चाहिए ;

और चूंकि उक्त बीनी उपक्रम ने अब तक बीनी का विनिर्माण प्रारंभ  
नहीं किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा  
(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती  
है कि उक्त बीनी उपक्रम का प्रबन्ध 27 दिसम्बर, 1978 को और  
उससे प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में  
निहित होगा।

[सं० बीनी/146/78-79]

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION  
(Department of Food)

New Delhi, the 26th December, 1978

ORDER

S.O. 726(E).—Whereas the Central Government being satisfied  
that as on the 15th day of November, 1978, Shree Sitaram Sugar  
Co. Ltd., (hereinafter in this Order referred to as the said sugar  
undertaking) manufacturing sugar at Baitalpur in the District  
of Deoria in the State of Uttar Pradesh has failed to commence  
manufacture of sugar by the 15th November, 1978;

And whereas the Central Government on the 19th day of  
November, 1978 issued Notice No. SUG/146/78-79 under sub-  
section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (taking  
over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978) to the owner  
of the said sugar undertaking calling upon him to report in  
writing within seven days from the date of receipt of the said

notice the circumstances under which the said sugar undertaking had failed to commence manufacture of sugar on or before the 15th day of November, 1978;

And whereas the Central Government having considered the report dated the 28th November, 1978 sent by the said sugar undertaking, specified the 11th day of December, 1978 as the date on or before which the said sugar undertaking should commence production of sugar;

And whereas the said sugar undertaking has not so far commenced manufacture of sugar;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 3 of the said Ordinance, the Central Government hereby declares that the management of the said sugar undertaking shall vest in the Central Government for a period of three years commencing on and from the 27th day of December, 1978.

[F. No. SUG/146/78-79]

#### आदेश

का०सा० 727(ख)—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 16 नवम्बर, 1978 को उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में देवरिया में स्थित चीनी का विनिर्माण करने वाली देवरिया शुगर मिल्स लिमिटेड (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त चीनी उपक्रम कहा गया है) 15 नवम्बर, 1978 तक चीनी का विनिर्माण प्रारंभ करने में असफल रही है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त चीनी उपक्रम के स्वामी को चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन 18 नवम्बर, 1978 को सूचना सं० चीनी/131/78-79 जारी की थी जिसमें उससे यह कहा गया था कि उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उन परिस्थितियों को लिखित रूप में बताएं, जिनके कारण उक्त चीनी उपक्रम 15 नवम्बर, 1978 को या उसके पूर्व चीनी का विनिर्माण प्रारंभ करने में असफल रही है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त चीनी उपक्रम की तारीख 26 नवम्बर, 1978 की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 11 दिसम्बर, 1978 को वह तारीख विनिर्दिष्ट किया भी था जिस तक या जिससे पूर्व उक्त उपक्रम को चीनी का उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए ;

और चूंकि उक्त चीनी उपक्रम ने अब तक चीनी का विनिर्माण प्रारंभ नहीं किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध 27 दिसम्बर, 1978 को और उससे प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित होगा ।

[सं० चीनी/131/78-79]

सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव

#### ORDER

S.O. 727(E).—Whereas the Central Government being satisfied that as on the 15th day of November, 1978, the Deoria Sugar Mills Limited (hereinafter in this Order referred to as the said sugar undertaking) manufacturing sugar at Deoria in the District of Deoria in the State of Uttar Pradesh has failed to commence manufacture of sugar by the 15th November, 1978;

And whereas the Central Government on the 18th day of November, 1978 issued Notice No. SUG/131/78-79 under subsection (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (taking over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978) to the owner of the said sugar undertaking calling upon him to report in writing within seven days from the date of receipt of the said notice the circumstances under which the said sugar undertaking had failed to commence manufacture of sugar on or before the 15th day of November, 1978;

And whereas the Central Government having considered the report dated the 25th November, 1978 sent by the said sugar undertaking, specified the 11th day of December, 1978 as the date on or before which the said sugar undertaking should commence production of sugar;

And whereas the said sugar undertaking has not so far commenced manufacture of sugar;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 3 of the said Ordinance, the Central Government hereby declares that the management of the said sugar undertaking shall vest in the Central Government for a period of three years commencing on and from the 27th day of December, 1978.

[F. No. SUG/131/78-79]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.